



लाइव टके का जवाब बीमा



अमित स्यूरी

सीएफपी, एयूएम फाइनेंशियल प्लानर्स

हमारे विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, टैक्स जैसे मुद्दों पर आपकी राह आसान करेंगे। आप सवाल

ethindiquery@gmail.com पर भेज सकते हैं

प्र मेरे पास रिलायंस गोल्ड मेडिकलेम पॉलिसी है। पिछले 3 साल से मैंने कोई क्लेम नहीं किया है। मौजूदा रिन्यूअल में कंपनी ने प्रीमियम की रकम में 350 फीसदी से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। गोल्ड प्रीमियम 4000 रुपए के बहुत कम प्रीमियम पर लॉन्च किया गया है। चौथे साल के रिन्यूअल में उसे बढ़ाकर 16000-18000 रुपए कर दिया गया। क्या इसके खिलाफ इरडा के पास जा सकता हूँ?

जान वर्गीज

उ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स हैं। नॉन टैरिफ व्यवस्था में बीमा कंपनी प्रीमियम की दरें ऑफर कर सकती है। प्रीमियम का फैसला कंपनी पुराने दावों के अनुपात, आगे की मौकों वगैरह पर करती है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने सस्ती प्रीमियम पर बाजार में हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। लेकिन दावों की संख्या को देखकर इसने प्रीमियम में बढ़ा दिया है। नॉन टैरिफ प्रोडक्ट होने से इरडा किसी कंपनी को प्रीमियम की रकम घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं कह सकती। लेकिन अगर प्रीमियम से संतुष्ट नहीं हैं तो किसी और कंपनी से इंश्योरेंस रिन्यू करा लीजिए जो कंटिन्यूटी और दूसरे लाभ दे रही हो।

प्र मैं 33 साल का हूँ और 50,000 रुपए मासिक कमाता हूँ। मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं जिसमें मुझे और पत्नी दोनों को कवर मिले।

इंदर चौधरी

उ अगर आप और आपकी होने वाली पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो आप दोनों के लिए पर्सनल एक्सिडेंटल इंश्योरेंस कवर पॉलिसी ले सकते हैं। आप दोनों को कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके अलावा आप दोनों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदनी चाहिए। इसके लिए आपके पास टर्म प्लान, यूलिप और एंडोमेंट प्लान का विकल्प है। आप सही प्लान के चुनाव के लिए वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। आपको क्रिटिकल इलनेस कवर पर भी विचार करना चाहिए जिससे आपात स्थिति में बहुत ज्यादा खर्च से बच सकें।

प्र मैं 52 साल का हूँ और मैंने 7 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है। मेरी बीमा पॉलिसी अगले महीने परिपक्व हो जाएगी। क्या मुझे कवर बढ़ाने के लिए इसकी जगह पर दूसरी पॉलिसी लेनी चाहिए? अगर हां, तो बताएं कि कौन सी पॉलिसी ली जाए।

संदेश कुमार

उ उम्र के साथ-साथ आय बढ़ती है। इसलिए आपकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। नियमित अंतराल पर बीमा की रकम में इजाफा करते रहना चाहिए। इससे आपको तब तक पर्याप्त सुरक्षा मिलती रहेगी जब तक आप कमाएंगे। आपको देखना होगा आपको कितने कवर की जरूरत है। इसी के हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। आप सामान्य टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसका प्रीमियम कम हो।